



कैनेडा डे के अवसर पर सुरक्षित रूप से पटाखे चलाएं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 जून, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को याद दिलाती है कि वे, कैनेडा डे (Canada Day) के अवसर पर पटाखे चलाते समय सुरक्षित रहने को महत्वपूर्ण समझें।

यदि निवासियों ने दोस्तों और परिवार के साथ आउटडोर इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो उनसे अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दें। ब्रैम्पटन, बुधवार, 30 जून को, सुबह 12:01 बजे सुरक्षित रूप से शहर को दुबारा खोलने के प्रांत के रोडमैप के स्टेप टू (Step Two of the Province's Roadmap to Reopen) में प्रवेश कर रहा है। स्टेप टू के अंतर्गत, आउटडोर सामाजिक जनसमूह 25 व्यक्तियों तक सीमित हैं। इनडोर जनसमूह, अलग घर के मेम्बर्स सहित, पांच व्यक्तियों तक सीमित हैं। अपने प्रियजनों और कम्युनिटी को सुरक्षित रखें। अच्छी तरह सफाई, शारीरिक दूरी रखें और यदि शारीरिक दूरी रखना मुश्किल हो तो मासक पहनें।

पटाखों से सुरक्षा

कैनेडा डे, साल में उन चार छुट्टियों में से एक है, जब ब्रैम्पटन में निजी प्रॉपर्टी पर, सिटी से अनुमति लिए बिना, छोटी-रेंज के पटाखों की अनुमति होती है। बाइ-लॉ के अंतर्गत, विक्टोरिया डे (Victoria Day), दीवाली (Diwali) और नववर्ष (New Year's Eve) को भी पटाखे चलाने की अनुमति होती है।

छोटी-रेंज के पटाखे ऐसे पटाखे हैं, जो चलाए जाने पर 3 मीटर (10 फुट) से कम दूरी तक जाते हैं (उदाहरण के लिए, अनार, चक्कर, ज़मीनी चक्कर, फुलझड़ियां)। इनकी ऊंचाई, लगभग ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) की बस या बास्केटबॉल हूप जितनी होती है। अन्य सभी रॉकेट किस्म में पटाखों पर ब्रैम्पटन में पाबंदी है। सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि पटाखों को गली में, पगडंडियों पर, सिटी के पार्कों के अंदर या म्युनिसिपल या स्कूल की प्रॉपर्टीज पर चलाने की अनुमति नहीं है।

निजी प्रॉपर्टी पर छोटी-रेंज के पटाखे चलाते समय, निवासियों के लिए इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करना आवश्यक है:

- अपने पास पानी का कंटेनर या पानी से भरी कोई होज़ लाइन रखें, जो पटाखे बुझाने के लिए उपलब्ध हो।
- फुलझड़ियों के अलावा, कभी भी पटाखों को अपने हाथों में पकड़कर न चलाएं या जलते हुए पटाखों को हाथ में न पकड़ें।
- कभी भी पटाखों को अन्य लोगों पर न फेंकें या उनकी तरफ करके न चलाएं।
- फुलझड़ियां चलाने के बाद, उनका निपटारा करने से पहले, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए उन्हें पानी के कंटेनर में डाल दें।
- सभी पटाखों का निपटारा करने से पहले, उन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें।

इस समय ब्रैम्पटन में, कोई रजिस्टर्ड पटाखा रिटेलर्स नहीं हैं। हम आपको सलाह देते हैं कि लाइसेंसधारी रिटेलर्स से ही पटाखे खरीदें। पटाखों से सुरक्षा और बाइ-लॉज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/fireworks पर जाएं।



-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca